



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2012/पौष 20, 1933

No. 40]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2012/PAUSA 20, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 47(अ) —कृषि एवं प्रसकृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ गठित कृषि एवं प्रसकृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, श्री जगदीश सैनी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कृषि एवं प्रसकृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अगस्त, 1986 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. का.आ. 486(अ) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 36 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“36. श्री जगदीश सैनी —सदस्य”।  
967, कमला नेहरू नगर टेलीग्राफ,  
गेट सं. 4 जबलपुर-482002 (म.प्र.)

[फा. सं. 6/17/2010-ईपी (एपी -IV)]

असित त्रिपाठी, सयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 486(अ) दिनांक 12 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे, :—

- (i) का.आ. 851(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 1986;
- (ii) का.आ. 50(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1987;
- (iii) का.आ. 757(अ), दिनांक 12 अगस्त, 1988;
- (iv) का.आ. 458(अ), दिनांक 16 जून, 1989;
- (v) का.आ. 808(अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 1990;
- (vi) का.आ. 39(अ), दिनांक 22 जून, 1991;
- (vii) का.आ. 99(अ), दिनांक 14 फरवरी, 1991;
- (viii) का.आ. 827(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 1991;
- (ix) का.आ. 858(अ), दिनांक 24 नवम्बर, 1992;
- (x) का.आ. 1050(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1993;
- (xi) का.आ. 531(अ), दिनांक 18 जुलाई, 1994;
- (xii) का.आ. 346(अ), दिनांक 19 अप्रैल, 1995;
- (xiii) का.आ. 668(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1995;
- (xiv) का.आ. 228(अ), दिनांक 21 मार्च, 1997;
- (xv) का.आ. 683(अ) दिनांक 26 सितम्बर, 1997;
- (xvi) का.आ. 146(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1998;
- (xvii) का.आ. 805(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 1998;
- (xviii) का.आ. 288(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 1999;
- (xix) का.आ. 794(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 1999;
- (xx) का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी, 2000;
- (xxi) का.आ. 417(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2000;
- (xxii) का.आ. 156(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2001;
- (xxiii) का.आ. 482(अ), दिनांक 29 मई, 2001;
- (xxiv) का.आ. 534(अ), दिनांक 10 मई 2002;
- (xxv) का.आ. 866(अ), दिनांक 10 जुलाई 2003;

- (xxvi) का.आ. 1353(अ), दिनांक 25 नवम्बर, 2003;  
 (xxvii) का.आ. 1385(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2005;  
 (xxviii) का.आ. 365(अ), दिनांक 20 मार्च, 2006;  
 (xxix) का.आ. 1087(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2006;  
 (xxx) का.आ. 588(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2007;  
 (xxxi) का.आ. 1780(अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2007;  
 (xxxii) का.आ. 52(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008;  
 (xxxiii) का.आ. 2135(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008;  
 (xxxiv) का.आ. 2710(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2008;  
 (xxxv) का.आ. 821(अ), दिनांक 23 मार्च, 2009;  
 (xxxvi) का.आ. 2699(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2009;  
 (xxxvii) का.आ. 31(अ), दिनांक 7 जनवरी, 2010;  
 (xxxviii) का.आ. 820(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2010;  
 (xxxix) का.आ. 942(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2010;  
 (xl) का.आ. 2066(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2010;  
 (xli) का.आ. 216(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2011;  
 (xlii) का.आ. 607(अ), दिनांक 21 मार्च, 2011;  
 (xliii) का.आ. 1804(अ), दिनांक 5 अगस्त, 2011;  
 (xliv) का.आ. 2021(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2011.

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

**S.O. 47(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986) read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby appoints Shri Jagdish Saini, as a Member of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986, namely :—

In the said notification, for serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be respectively substituted, namely :—

“36. Shri Jagdish Saini, —Member.”  
 967, Kamla Nehru Nagar,  
 Telegraph, Gate No. 4  
 Jabalpur-482002 (M.P.)

[F. No. 6/17/2010-EP (Agri. IV)]

ASIT TRIPATHY, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986 and subsequently amended by the following notifications, namely :—

- (i) S.O. 851(E), dated the 20th November, 1986;  
 (ii) S.O. 50(E), dated the 3rd February, 1987.  
 (iii) S.O. 757(E), dated the 12th August, 1988,  
 (iv) S.O. 458(E), dated the 16th June, 1989,  
 (v) S.O. 808(E), dated the 22nd October, 1990;  
 (vi) S.O. 39(E), dated the 22nd June, 1991;  
 (vii) S.O. 99(F), dated the 14th February, 1991;  
 (viii) S.O. 827(E), dated the 16th December, 1991;  
 (ix) S.O. 858(E), dated the 24th November, 1992;  
 (x) S.O. 1050(F), dated the 31st December, 1993;  
 (xi) S.O. 531(E), dated the 18th July, 1994;  
 (xii) S.O. 346(E), dated the 19th April, 1995;  
 (xiii) S.O. 668(F), dated the 26th July, 1995;  
 (xiv) S.O. 228(F), dated the 21st March, 1997;  
 (xv) S.O. 683(E), dated the 26th September, 1997;  
 (xvi) S.O. 146(E), dated the 24th February, 1998;  
 (xvii) S.O. 805(E), dated the 11th September, 1998;  
 (xviii) S.O. 288(F), dated the 26th April, 1999;  
 (xix) S.O. 794(E), dated the 27th September, 1999;  
 (xx) S.O. 39(E), dated the 12th January, 2000;  
 (xxi) S.O. 417(F), dated the 26th April, 2000;  
 (xxii) S.O. 156(E), dated the 22nd February, 2001;  
 (xxiii) S.O. 482(E), dated the 29th May, 2001;  
 (xxiv) S.O. 534(E), dated the 10th May, 2002;  
 (xxv) S.O. 866(E), dated the 10th July, 2003;  
 (xxvi) S.O. 1353(E), dated the 25th November, 2003;  
 (xxvii) S.O. 1385(E), dated the 23rd September, 2005;  
 (xxviii) S.O. 365(E), dated the 20th March, 2006;  
 (xxix) S.O. 1087(E), dated the 11th July, 2006;  
 (xxx) S.O. 588(E), dated the 17th April, 2007;  
 (xxxi) S.O. 1780(E), dated the 16th October, 2007;  
 (xxxii) S.O. 52(E), dated the 9th January, 2008;  
 (xxxiii) S.O. 2135(E), dated the 29th August, 2008;  
 (xxxiv) S.O. 2710(E), dated the 18th November, 2008;  
 (xxxv) S.O. 821(E), dated the 23rd March, 2009;  
 (xxxvi) S.O. 2699(E), dated the 27th October, 2009;  
 (xxxvii) S.O. 31(E), dated the 7th January, 2010;  
 (xxxviii) S.O. 820(E), dated the 9th April, 2010;  
 (xxxix) S.O. 942(E), dated the 23rd April, 2010;  
 (xl) S.O. 2066(E), dated the 23rd August, 2010;  
 (xli) S.O. 216(E), dated the 27th January, 2011;  
 (xlii) S.O. 607(E), dated the 21st March, 2011;  
 (xliii) S.O. 1804(E), dated the 5th August, 2011;  
 (xliv) S.O. 2021(E), dated the 30th August, 2011.